

प्रेस नोट दिनांक 22.03.2021

थाना अलीगंज जनपद बरेली ।

थाना अलीगंज #bareillypolice द्वारा चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुये दो अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, निशादेही पर भैसों को बेचकर प्राप्त धनराशि, भैसे तथा जंजीर व घंटी आदि बरामद ।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बरेली के आदेशानुसार एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी महोदय आंवला के निर्देशन में थाना अलीगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 68/21 धारा 380/411 आईपीसी थाना आंवला पर पंजीकृत मु0अ0सं0 77/21 धारा 457/380/411 आईपीसी व 88/21 धारा 379/411 आईपीसी का थाना अलीगंज पुलिस द्वारा सफल अनावरण किया गया । दिनांक 21.03.2021 को थानाध्यक्ष अलीगंज श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह मय उ0नि0 श्री प्रदीप कुमार राघव, उ0नि0 श्री शोभाराम व का0 1794 मो0 उमर, का0 2174 आकाश कुमार, का0 3056 गौरव निर्वाल मय जीप सरकारी व चालक के अभियान पाताल -2, भ्रमण व गस्त एवं चैकिंग में खाना थे मुखबिर की सूचना पर वहद ग्राम मंडोरा के पास स्थित यात्री शेड में बैठे मुकदमा उपरोक्त में शामिल 06 अभियुक्तगण में से 02 अभियुक्तगण 1.संजय पुत्र रूपराम मौर्य 2.सुखपाल पुत्र विक्रम निवासीगण ग्राम राजपुर कला थाना अलीगंज जिला बरेली को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया तथा 04 अभियुक्तगण रात्रि का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे जिनके नाम 1.रिजवान S/O रशीद उर्फ हकीम 2. शाकिर S/O इकबाल कुरेशी 3.आदिल पुत्र रफीक पहलवान नि0गण अलीगंज थाना अलीगंज जनपद बरेली 4. नरेश S/O हीरालाल नि0 ग्राम भजनई थाना अलीगंज जिला बरेली के नाम हैं । पकड़े गये अभियुक्त संजय उपरोक्त से चोरी की भैसों को बेचकर प्राप्त रूपये 15,000/- व एक अदद तमंचा 315 बोर जिसकी नाल में फसा 01 खोखा कारतूस व 02 अदद कारतूस जिन्दा 315 बोर व अभियुक्त सुखपाल उपरोक्त से चोरी की भैसों को बेचकर प्राप्त रूपये 15,000/- व एक अदद तमंचा 12 बोर जिसकी नाल में फसा 01 खोखा कारतूस व 02 अदद कारतूस जिन्दा 12 बोर बरामद किया गया है । उपरोक्त के संबंध में अभियुक्त संजय आदि 06 नफर उपरोक्त के विरुद्ध धारा 307 आईपीसी का अभियोग पंजीकृत किया गया है एवं बरामद अवैध शस्त्र व कारतूस के संबंध में थाना हाजा पर अभियुक्त संजय उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 70/21 धारा 3/25 ए एक्ट व अभियुक्त सुखपाल उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 71/21 धारा 3/25 ए एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है । पूछताछ के दौरान अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा अलीगंज थाना क्षेत्र में हुई भैस चोरी के अलावा थाना विशारतगंज व आंवला क्षेत्र में भैस चोरी की घटनायें कारित करना बताया तथा इनकी निशादेही पर थाना विशारतगंज में पंजीकृत भैस चोरी के मु0अ0सं0 44/21 धारा 380/411 आईपीसी से संबंधित भैस को बरामद किया गया है तथा थाना आंवला पर पंजीकृत मु0अ0सं0 77/21 धारा 457/380/411 आईपीसी व 88/21 धारा 379/411 आईपीसी से संबंधित चोरी हुयी भैसों की जंजीर व घंटी बरामद की गयी है तथा चोरी के दौरान भैसों को ले जाने में प्रयुक्त गाड़ी पिकअप सं0 UP 25ET 0951 को भी जब्त किया गया है । फरार 04 अभियुक्तों की तलाश जारी है, शीघ्र ही गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी ।

गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम व पता:-

1. संजय पुत्र रूपराम मौर्य नि0 ग्राम राजपुर कला थाना अलीगंज जिला बरेली ।
2. सुखपाल पुत्र विक्रम नि0 ग्राम राजपुर कला थाना अलीगंज जिला बरेली ।

बरामदगी का विवरण:-

1. चोरी की भैसो को बेचने से अभियुक्तगण को प्राप्त रूपये – 30,000/-
2. एक तमंचा 315 बोर जिसकी नाल में फसा एक खोखा कारतूस व 02 अदद कारतूस जिन्दा 315 बोर
3. एक तमंचा 12 बोर जिसकी नाल में फसा एक खोखा कारतूस व 02 अदद कारतूस जिन्दा 12 बोर
4. अभियुक्तगण की निशादेही पर थाना विशारतगंज की चोरी की गयी एक भैस व एक पड़िया वनखड़ी मंदिर के पास अरिल नदी की झाडियो से बरामद की गयी ।
5. थाना आंवला क्षेत्र मे चोरी की गयी भैसो की जंजीर व घंटी बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. थानाध्यक्ष सुरेन्द्र कुमार सिंह थाना अलीगंज जनपद बरेली ।
2. उ0नि0 श्री प्रदीप कुमार थाना अलीगंज जनपद बरेली ।
3. उ0नि0 श्री शोभाराम थाना अलीगंज जनपद बरेली ।
4. हे0का0 830 सुधीर कुमार थाना अलीगंज जनपद बरेली ।
5. का0 3056 गौरव निर्वाल थाना अलीगंज जनपद बरेली ।
6. का0 2174 आकाश कुमार थाना अलीगंज जनपद बरेली ।
7. का0 1794 मो0 उमर थाना अलीगंज जनपद बरेली ।

थानाध्यक्ष अलीगंज
जनपद बरेली ।

